



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 सितंबर 2025

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – सितंबर 2025

सितंबर 2025 माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य बातें :

ऋण दरें :

- एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) अगस्त 2025 में 8.75 प्रतिशत पर रहा (जुलाई 2025 में 8.81 प्रतिशत)।
- एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर जुलाई 2025 में 9.38 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2025 में 9.32 प्रतिशत हो गया।
- एससीबी की एक वर्षीय निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की माध्यिका सितंबर 2025 में 8.60 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।
- एससीबी के कुल बकाया अस्थिर दर रुपया ऋणों में बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी जून 2025 के अंत में 62.9 प्रतिशत थी (मार्च 2025 के अंत में 61.6 प्रतिशत) जबकि एमसीएलआर से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी 33.8 प्रतिशत थी (मार्च 2025 के अंत में 34.9 प्रतिशत)।

जमा दरें :

- एससीबी की नई रुपया मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) जुलाई 2025 में 5.61 प्रतिशत से कम होकर अगस्त 2025 में 5.56 प्रतिशत हो गई।
- एससीबी की बकाया रुपया मीयादी जमाओं पर डब्ल्यूएडीटीडीआर अगस्त 2025 में 6.87 प्रतिशत था (जुलाई 2025 में 6.92 प्रतिशत)।